

रूपम कुमारी, विषय-हिन्दी, वर्ग -अष्टम

विद्याभवन, बालिका विद्यापीठ , लखीसराय

12/4/20

प्रिय बच्चों,

इस विश्वास के साथ कि आपने पिछले 4-5 कक्षा पर दी गई शिक्षण-सामग्री का मानसिक संग्रहण कर लिया होगा साथ ही साथ कॉपी में भी लिख लिया होगा। आज की कक्षा में हम भाषा पाठ के शेषांश को पढ़ते हुए संबंधित संपूर्ण पाठ से संबंधित प्रश्नाभ्यास को पूरा करेंगे सारे प्रश्न शिक्षण-सामग्री आधारित होगी।

उपभाषा एवं उसके अंतर्गत बोलियाँ –

पश्चिमी हिन्दी- ब्रज , खड़ी बोली , हरियाणवी , बुंदेली और कन्नौजी

पूर्वी हिन्दी - अवधी बाघेली , छत्तीसगढ़ी

राजस्थानी - मेवाती , मारवाड़ी, हाड़ोती , मेवाड़ी

बिहारी_ मैथिली , मागधी , भोजपुरी

पहाड़ी _ गढ़वाली , कुमाँनी

दक्खिनी - बीजापुर

इसे note करेंगे।

अब आप निम्नलिखित प्रश्नों को कॉपी में लिखकर उसका उत्तर देंगे _:

*

पाठ के आधार पर हिन्दी भाषा को आप राजभाषा की श्रेणी में रखेंगे ?

२- भाषा के कुल कितने भेद होते हैं ?

३- व्याकरण के कितने अंग होते हैं ?

४- व्याकरण शब्द का विच्छेद करें।

५-किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं ?

६-देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किसी एक भाषा का नाम लिखें।

७-भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है ?

८-बोलकर भाव व्यक्त करने वाली भाषा क्या कहलाती है ?

९- लिखित भाषा का कोई एक उदाहरण दें ।

१०-हिन्दी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?

११-हिन्दी भाषा की _____ उपभाषाएँ हैं ?

१२- भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं ?

१३-हिन्दी भाषा की किन्हीं तीन बोलियों का नाम लिखें ।

१४- भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला क्या कहलाता है ?

१५- उपभाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट करें ।

आज के लिए बस इतना ही !

धन्यवाद !

जीवन की यह कठिन घड़ी सिर्फ विनाश का
पिटारा ही नहीं लाई है ,बल्कि इसकी गठरी में
'संयम' एवं 'अनुशासन' का अनमोल तोहफा भी
है।यह हम पर निर्भर करता है कि हम उपहार
कुबूल करते हैं या उसे लौटा देते हैं ।  